

**परियोजना का नाम :-**

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मोरी में भियागाड से कुनारा तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्ररनगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 18-12-014 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई  
प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

| क्र.सं. | भूमि की श्रेणी  | वनब्लाक / कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या | प्रजाति   | वैज्ञानिक नाम | व्यास वर्ग |       |       |       |       |       |       |       |            |     |     |
|---------|-----------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|
|         |                 |                                       |           |               | 10-20      | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90 से अधिक | योग |     |
| 1.      | आरक्षित वन भूमि | पासा-8                                | चीड़      |               | 16         | 25    | 31    | 18    | 8     | 1     | -     | -     | -          | -   | 99  |
|         |                 |                                       | कुकाट     |               | -          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | 1   |
|         |                 |                                       | कैल       |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | बुरांस    |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | अयाँर     |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | बाँज      |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | योग -     |               | 16         | 26    | 31    | 18    | 8     | 1     | -     | -     | -          | -   | 100 |
|         |                 | पासा-9                                | चीड़      |               | 43         | 56    | 64    | 56    | 12    | -     | -     | -     | -          | -   | 231 |
|         |                 |                                       | कुकाट     |               | 1          | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | 2   |
|         |                 |                                       | कैल       |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | बुरांस    |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | अयाँर     |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | बाँज      |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | योग -     |               | 44         | 57    | 64    | 56    | 12    | -     | -     | -     | -          | -   | 233 |
|         |                 |                                       | कुल योग - |               | 60         | 83    | 85    | 74    | 20    | 1     | -     | -     | -          | -   | 333 |
| 2       | सिंवेल् सोयम    | पासा सोयम                             | देवदार    |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | कैल       |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | चीड़      |               | 4          | 32    | 37    | 26    | 17    | 3     | 2     | -     | -          | -   | 121 |
|         |                 |                                       | मेहल      |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | बाँज      |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | फर        |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | अयाँर     |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         |                 |                                       | कुकाट     |               | -          | 2     | 1     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | 3   |
|         |                 |                                       | योग -     |               | 4          | 34    | 38    | 26    | 17    | 3     | 2     | -     | -          | -   | 124 |
| 3.      | वन पचायत        | -                                     | -         |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
| 4.      | संरक्षित वन     | -                                     | -         |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         | योग :- वन भूमि  | -                                     | -         |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
| 5.      | नाप भूमि        | -                                     | -         |               | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -   | -   |
|         | कुल योग         | -                                     | -         |               | 64         | 117   | 133   | 100   | 37    | 4     | 2     | -     | -          | -   | 457 |

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

६०/-

राजि अधिकारी

उप वन संरक्षक  
टैन्स वन प्रभाग  
प्रभागीय वनाधिकारी  
पुराला

३५ प्रभागान्न मन्नायकाय  
द्विन्स वन प्रमाण.  
पुस्तक

ह०/-  
स्व विभाग

तहसीलदार  
पूराला

६०/-

जिलाधिकारी

प्रतिस्वाधर  
जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी